




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3 Sub-Section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 122]  
No. 122]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 19, 1979/चैत्र 29, 1901  
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 19, 1979/CHAITRA 29, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1979

### केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० वि० 252(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे समस्त उत्पाद-शुल्क माल को जिन पर उत्पाद-शुल्क देय है और जिनके विनिर्माण में मोटर यानों और ट्रैक्टरों के पुर्जों और उपस्करों जिसके अन्तर्गत ट्रेलर भी सम्मिलित हैं, का उपयोग किया गया है और जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मव सं० 34क के अधीन आते हैं उन पर अब प्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उक्त पुर्जों और उपस्करों पर पहले ही संवत् उत्पाद-शुल्क के समतुल्य हो।

2. इस अधिसूचना की कोई भी बात मोटर यानों और ट्रैक्टरों के पुर्जों और उपस्करों को, जिसके अन्तर्गत ट्रेलर भी हैं, लागू नहीं होगी, अर्थात्, निम्नलिखित:—

- (i) ब्रेक लाइनिंग
- (ii) क्लच फेंसिंग,
- (iii) इंजिन के बाल्व

- (iv) गास्केट
- (v) नोजल और नाजल की पकड़
- (vi) पिस्टन
- (vii) पिस्टन रिंग
- (viii) गजन पिन
- (ix) सरकिलप
- (x) शाक एक्जार्बर
- (xi) स्पाईक प्लग
- (xii) पतली बीवाल वाली बेयरिंग
- (xiii) टाईरांड का सिरा
- (xiv) बिजली के हार्न और
- (xv) फिल्टर के एसीमेंट, उसकी अन्तगवस्तु और कार्ट्रिज।

[166/79 का० सं० 63/9/79-टी० आर० यू०]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th April 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 252(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the

Central Government hereby exempts all excisable goods, on which the duty of excise is payable and in the manufacture of which parts and accessories of motor vehicles and tractors, including trailers, falling under Item No. 34A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), have been used, from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the duty of excise already paid on the said parts and accessories.

2. Nothing contained in this notification shall apply to the parts and accessories of motor vehicles and tractors, including trailers, the following, namely :—

- (i) brake linings ;
- (ii) clutch facings ;
- (iii) engine valves ;
- (iv) gaskets ;
- (v) nozzles and nozzle holders ;
- (vi) pistons ;
- (vii) piston rings ;
- (viii) gudgeon pins ;
- (ix) circlips ;
- (x) shock absorbers ;
- (xi) sparking plugs ;
- (xii) thin-walled bearings ;
- (xiii) tie-rod ends ;
- (xiv) electric horns ;
- (xv) filter elements, inserts and cartridges.

[No. 166/79/F. No. B. 63/9/79-TRU]

सां. कां. वि० 253 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटरयानों और ट्रैक्टरों के ऐसे पुर्जों और उपस्करों को, जिनके अन्तर्गत ट्रेलर भी हैं, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की सब सं० 34क के अन्तर्गत आते हैं और जो या तो उसी कारखाने में, जिसमें उनका विनिर्माण किया जाता है, या किसी अन्य कारखाने में उत्पाद शुल्क्य माल के भागे विनिर्माण में उपयोग के लिए आशयित हैं, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु—

- (i) जहाँ ऐसा उपयोग, विनिर्माता के उस कारखाने से भिन्न, जिसमें उक्त पुर्जों और उपस्करों का विनिर्माण किया गया है, किसी अन्य कारखाने में होता है, वहाँ इस अधिसूचना में अन्तर्बिष्ट छूट समुचित अधिकारी का यह समाधान होने पर अनुज्ञेय होगी कि उक्त पुर्जों और उपस्कर ऐसे उपयोग के लिए आशयित हैं ; और
- (ii) जहाँ ऐसा उपयोग, अन्य विनिर्माता के कारखाने में होता है, वहाँ इस अधिसूचना में अन्तर्बिष्ट छूट उक्त नियमों के अध्याय 10 में अधिकृत प्रक्रिया का पालन करने पर अनुज्ञेय होगी ।

2. इस अधिसूचना में अन्तर्बिष्ट कोई भी बात मोटर यानों और ट्रैक्टरों के, पुर्जों और उपस्करों को जिनके अन्तर्गत ट्रेलर भी हैं, लागू नहीं होगी, अर्थात् निम्नलिखित—

- (1) ब्रेक लाइनिंग,
- (2) क्लच फेसिंग,
- (3) इंजिन के वाल्व,

- (4) गार्स्केट,
- (5) नॉजल और नॉजल की पकड़
- (5) पिस्टन
- (7) पिस्टन रिंग
- (8) गजिन पिन
- (9) सरक्लिप
- (10) शाफ्ट एक्सराबर
- (11) स्पार्क प्लग
- (12) पतली दीवाल वाली बेयरिंग
- (13) टाई रोड का सिरा
- (14) बिजली के हार्न, और
- (15) फिल्टर के एलीमेंट, उसकी अन्तर्बस्तु और कार्ट्रिज ।

[167/79/फा० सं० ख 63/8/79-टी० आर० यू०]

**G.S.R. 253(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts parts and accessories of motor vehicles and tractors, including trailers, falling under Item No. 34A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and intended for use in further manufacture of excisable goods either in the factory in which they are manufactured or in any other factory, from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that—

- (i) where such use is in a factory of a manufacturer different from his factory in which the said parts and accessories have been manufactured, the exemption contained in this notification shall be allowable subject to the proper officer being satisfied that the said parts and accessories are intended for such use ; and
- (ii) where such use is in a factory of another manufacturer, the exemption contained in this notification shall be allowable subject to the observance of the procedure set out in Chapter X of the said rules.

2. Nothing contained in this notification shall apply to the parts and accessories of motor vehicles and tractors including trailers, the following namely,—

- (i) brake linings ;
- (ii) clutch facings ;
- (iii) engine valves ;
- (iv) gaskets ;
- (v) nozzles and nozzle holders ;
- (vi) pistons ;
- (vii) piston rings ;
- (viii) gudgeon pins ;
- (ix) circlips ;
- (x) shock absorbers ;
- (xi) sparking plugs ;
- (xii) thin-walled bearings ;
- (xiii) tie-rod ends ;
- (xiv) electric horns ;
- (xv) filter elements, inserts and cartridges.

[No. 167/79/F. No. B. 63/9/79-TRU]

सां.कां.विं. 254 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56 क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 223/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 दिसम्बर, 1962 में निम्नलिखित और संशोधित करती है:—

उक्त अधिसूचना में, मद 49 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“मोटर यानों और ट्रैक्टरों के पुर्जों और उपकरण जिसके अन्तर्गत ट्रेलर भी है, अर्थात् निम्नलिखित, (i) ब्रेक लाइनिंग, (ii) क्लच फेसिंग, (iii) इंजिन के वाल्व, (iv) गैसकेट, (v) नाजल और नाजल की पकड़, (vi) पिस्टन, (vii) पिस्टन के रिंग, (viii) गज्जिन पिन, (ix) सरकिलप, (x) शाक एबजॉर्बर, (xi) स्पार्क प्लग, (xii) पतली दीवाल वाली बेयरिंग, (xiii) टाईराइड का सिरा, (xiv) बिजली के हार्न, और (xv) फिल्टर के एसीमेंट, उसकी अन्तर्गन्धस्तु और कार्ट्रिज”

[168/79 फा० सं० ख 63/9/79-टी० प्रार० यू०]

**G.S.R. 254(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 223/62-Central Excises, dated the 29th December, 1962 :—

In the said notification, for the entry against item 49, the following entry shall be substituted, namely :—

“Parts and accessories of motor vehicles and tractors, including trailers the following, namely, (i) brake linings, (ii) clutch facings, (iii) engine valves, (iv) gas-kets, (v) nozzles and nozzle holders, (vi) pistons (vii) piston rings, (viii) gudgeon pins, (ix) circlips, (x) shock absorbers, (xi) sparking plugs (xii) thin-walled

bearings, (xiii) tie-rod ends, (xiv) electric horns, and (xv) filter elements, inserts and cartridges.”

[No. 168/79/F. No. B. 63/9/79-TRU]

सां.कां.विं. 255 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विरुद्धित करती है, अर्थात्:—

1. सं० 109/79—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13, मार्च, 1979
2. सं० 110/79—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 मार्च, 1979
3. सं० 111/79—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13 मार्च, 1979

[169/79 के० उ० शु० फा० सं० ख 63/9/79-टी० प्रार० यू०]

टी० प्रार० रस्तोगी, प्रवर सचिव

**G.S.R. 255(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely :—

1. No. 109/79-Central Excises, dated the 13th March, 1979.
2. No. 110/79-Central Excises, dated the 13th March, 1979.
3. No. 111/79-Central Excises, dated the 13th March 1979.

[No. 169/79/F. No. 63/9/79-TRU]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.

